

Sindhu Trade Links Limited

Regd. Office: 129, Transport Centre, Rohtak Road, Punjabi Bagh, New Delhi-110035

Ref. No. STLL / BSE-NSE / 2023-24/37

Dated 14/2/24

B.S.E. Limited Floor 25, P.J Towers, Dalal Street, Mumbai- 400001

National Stock Exchange of India Limited Exchange Plaza, 5th Floor, Plot No. C/1, G Block, Bandra Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai - 400051

BSE Scrip Code: 532029

NSE Symbol: SINDHUTRAD

Sub: <u>Publication of Unaudited Standalone & Consolidated Financial Results for the Quarter ended on 31st December, 2023.</u>

Sir,

In compliance with regulation 47 of SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we are hereby enclosing copies of newspaper Hari Bhoomi & Financial Express dated 14th February, 2024 for publishing the unaudited Standalone & Consolidated Financial Results for the Quarter ended on 31st December, 2023.

This is for your information and Record.

Thanking You,

Yours Faithfully, For Sindhu Trade Links Limited

(Company Secretary)

Website: www.sindhutrade.com, CIN No.: L63020DL1992PLC121695

फरवरी की रेवाड़ी रैली को हर विस मे

हरिभूमि ब्यूरो 🕪 चंडीगढ़

लोकसभा चुनाव के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल और प्रदेश अध्यक्ष नायब सैनी ने सभी सांसदों, विधायकों, जिला प्रभारियों और

जिला अध्यक्षों को मंगलवार को चंडीगढ बुलाकर कह दिया है कि हरियाणा में

लोकसभा की 10 की दसों सीटों पर

एतिहासिक जीत दर्ज करने के लिए सभी को

कोई कसर नहीं छोड़नी है, इसलिए अपने जनसंपर्क अभियानों को और तेज कर दें।

इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की 16

फरवरी की रेवाड़ी रैली को हर विधानसभा में

बड़ी स्क्रीन पर देखने के प्रबंध करने के निर्देश

बैठक में दिए गए। बैठक के बाद पत्रकारों से

बातचीत करते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष

नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र

मोदी 16 फरवरी को रेवाड़ी में एम्स की

आधारशिला रखने आ रहे हैं। प्रधानमंत्री के

भव्य स्वागत और ज्यादा से ज्यादा लोग

प्रचालनों से कुल आय (शुद्ध)

अवधि हेतु शुद्ध लाभ/(हानि) (कर, असाधारुण् और/अथवा

कर से पर्व अवधि हेतु शुद्ध और/अथवा असामान्य मदों के बाद)

अवधि हेत् कुल व्यापक आय

, आय (कर के बाद)]

अर्जन प्रति शेयर

बेसिक :

[अवधि हेर्तु निहित लाभ/(हानि) (कर के बाद) और अन्य व्यापव

भुगतान किया गया इक्विटी शेयर कैपिटर

रिजर्व्स (पूर्ववर्ती वर्ष की बैलेंस शीट में दर्शाये अनुसार पुनर्मूल्यांकन रिजर्व्स को छोड़कर)

(निरंतर और अनिरंतर प्रचालनों हेत्)

स्थान : नई दिल्ली दिनांक : 13.02.2024

असामान्य मदों से पूर्व)

31.12.2023 (अअंकेक्षित)

-1.82

-1.36

704.00

-0.02

30.09.2023

67.14

0.95

भाजपा के सभी सांसदों, विधायकों, प्रभारियों और जिला अध्यक्षों की चंडीगढ़ में बैठक

योजना बनाई गई है। सैनी ने कहा कि

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हरियाणा से विशेष

लगाव रहा है, इसलिए लगातार बड़ी-बड़ी

सौगातें हरियाणा को देते रहे हैं। प्रधानमंत्री

मोदी ने जहां देश में विकास की गति को तेज

किया है उसमें भी हरियाणा पीछे नहीं रहा है।

हरियाणा में सडकों, हाइवें, एक्सप्रेस-वे का

फॉर्च्यून इंटरनेशनल लि. cm : L52324DL1981PLC012033

पंजी. कार्यालय : जी-4, कम्यूनिटी सेंटर, नारायणा विहार, नई दिल्ली-110028 E- Mail ID for investors: rekha.srivastava2016@gmail.com Tel: 011-25774212-214, 25771629

31 दिसम्बर 2023 को समाप्त तिमाही / नौ माह हेतु अअंकेक्षित स्टैंडअलोन और समेकित वित्तीय परिणामों का सार

31.12.2022 31.03.2023 31.12.2023 (अअंकेक्षित) (अंकेक्षित) (अअंकेक्षित)

45.56

0.65

-1.36

0.95

31.12.2023 (अअंकेक्षित)

57.65

लोकसभा की सभी 10 सीटों

पर जीत के लिए बनाई रणनीति

मीटिंग में मुख्यमंत्री मनोहर लाल एवं नायब सैनी

जाल बिछा है वहीं वंदेभारत जैसी टेन

हरियाणा को मिली है। नायब सैनी ने बताया

कि 16 फरवरी को प्रधानमंत्री मोदी रेवाडी से

विकास अनेक नई-नई परियोजनाओं का

उदघाटन करेंगे तो कुछ परियोजनाओं की

आधारशिला रखेंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने

प्रधानमंत्री मोदी की रेवाडी की रैली को भव्य

बनाने के जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं।

समेकित परिणाम

समाप्त नौ माह

31.12.2023 (अअंकेक्षित)

-32.22

306.44

4.35

31.12.2022 (अअंकेक्षित) (अंकेक्षित)

-28.45

428.11

6.08

(रुचिका भारद्वाज निदेशव

(डीआईएन-00288459

-44.32

716.80

2703.67

समाप्त तिमाही

30.09.2023

-22.73

महिलाओं के पोषण व शिक्षा पर विशेष ध्यान

सम्राट चौधरी ने पेश किया २.७८ लाख करोड़ का बजट, नौकरी, शिक्षा व रोजगार पर जोर

बिहार विधानसभा के बजट सत्र का दुसरा दिन है। उपमुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने बिहार विधानसभा में बजट पेश वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 2 में महिलाओं के पोषण पर विशेष ध्यान दिया गया है। उन्होंने

बिहार का बजट पेश हो गया है। उपमुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने बिहार बजट 2024 को विधानसभा के पटल पर रखा है। बजट में नौकरी, शिक्षा, महिलाओं के पोषण और रोजगार पर जोर है।



निश्चय-२ के लिए ५ हजार ४० करोड

शिक्षा पर फोकस

बजट २ लाख ७८ हजार करोड़ का है। वित्त मंत्री ने कहा कि, बिहार के प्रति क्षेत्र में माध्यमिक व उच्च माध्यमिक स्कूलों में ड्रॉप आउट पर भारी गिरावट दर्ज हुई। साल 2015-2016 से 2022-23 के बीच प्राथमिक पर 25 फीसदी, उच्च शिक्षा पर ३९.४ फीसदी और माध्यमिक शिक्षा पर ४० फीसदी की गिरावटू दर्ज की गई।

<u>बिहार में गरीबी दर घटी</u>

वित्त मंत्री ने कहा कि प्रदेश में 2 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। गरीबी दर में 18.13 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई, जब कि राष्ट्रीय स्तर पर गरीबी दर में 9.89 फीसदी की गिरावट देखी गई। वित्तमंत्री ने कहा कि सरकार विकास के मुद्दे पर काम कर रही है। बिहार में विकास दर 10.4 फीसदी है, जो देश में सबसे ज्यादा है। उन्होंने कहा कि समाज के हरू वर्ग का सूरकार ध्यान रखेगी।

<u>चतुर्थ कृषि रोडमैप लागू</u> वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए राज्य सरकार ने चतुर्थ कृषि रोडमैप को लागू किया है। इससे 2028 तक कृषि एवं सावर्ती क्षेत्र में लंगभग 1.2 लाख करोड़ रुपए का व्यय का

<u>खेलों को बढ़ावा</u>

खेलों को लेकर भी सम्राट चौधरी ने बड़ा ऐलान किया। कहा कि राज्य के खिलाड़ियों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रोत्साहित किया जा रहा है। ओलंपिक खेलों के लिए खिलाडियों को तैयार किया जा रहा है। प्रदेश में खेलों को सुगम बनाने और खेल को बढावा देने के लिए सरकार लगातार काम कर रही है।

बिहार आईटी पॉलिसी 2024 अगले 5 वर्षों तक लागू रहेगी। इससे आईटी क्षेत्र में रोजगार बढाने कों कोशिश की गई। साथ ही अगले 5 सालों में को २ लाख अनुदान देने की घोषणा की गई।

बिहार में ईवी व्हीकल पर जोर

वित्त मंत्री ने कहा कि बिहार सरकार ने इलेक्ट्रिक व्हील पॉलिसी 2023 लागू किया है, जिसके तहत पर्यावरण सुरक्षा सुनिश्चित की गई है। हमारा उद्देश्य राज्य में यह पॉलिसी एक मॉडल की तरह स्थापित हो। इस पॉलिसी के तहत 10 हजार वाहनों के लिए हर दूपहिया वाहन पर 5000 किलोवॉट अधिकतम १० हजार सब्सिडी, वहीं शरुआत में एक हजार चार पहिया पर 10,000 रुपए प्रति किलो वॉट 1.25 लाख सिंब्सडी और एससी एसटी के लिए डेढ लाख क्रय सब्सिडी दी जाती है।

मार्य ने सपा महासचिव पद से दिया इस्तीफा



लखनऊ। अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य ने सपा महासचिव पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपने इस्तीफे के साथ ही अखिलेश यादव के नाम लंबा पत्र भी लिखा है। फिलहाल वह सपा एमएलसी बने रहेंगे। उन्होंने इस्तीफे में लिखा कि पद के बिना भी पार्टी को सशक्त

मौर्य के खिलाफ पिछले कुछ दिनों से सपा में ही आवाज मुखर हो रही थी। इसकी चर्चा भी अपने इस्तीफे में स्वामी प्रसाद मौर्य ने की है।

बनाने के लिए मैं तत्पर रहँगा। स्वामी प्रसाद

युपी में चार आईपीएस के तबादले के

बाद पीसीएस अधिकारी भी बदले गए

लखनऊ। यपी में आईपीएस अफसरों के तबादले के बाद पीसीएस अफसरों के भी स्थानांतरण की सूची भी आ गई है। सूची में छह पीसीएस अफसरों के नाम हैं। जिन चार आईपीएस को बदला गया है उनमें पीयूष मोर्डिया का भी नाम शामिल है। मोर्डिया को एडीजी लखनऊ से अपर पुलिस महानिदेशक वाराणसी जोन भेजा गया है। अमरेंद्र कुमार सेंगर को लखनऊ में अपर पुलिस महानिदेशक जोन बनाया गया है। दुर्गेश कुमार लखनऊ में डीसीपी वेस्ट बनाए गए हैं। रामकुमार अपर पुलिस महानिदेशक मानवाधिकार बनाया गया है। तबादलों के पीछे चुनाव आयोग का निर्देश बताया है। आयोग ने जिले में चार साल और एक ही पद पर तीन साल से तैनात अफसरों का तबादला करने का निर्देश दिया है। उत्तर प्रदेश में ट्रांसफर किए गए पीसीएस अफसरों में निशात तिवारी को एसडीएम औऱया से ललितपुर में नया उपजिलाधिकारी बनाया गया है। प्रवीण कमार को उपजिलाधिकारी आगरा के पद से एसडीएम सल्तानपर जिम्मेदारी सौंपी गई है। रमेश चन्द्र को एसडीएम उपजा से मिर्जापुर का नया उपजिलाधिकारी बनाया गया है। मकसूदन गुप्ता को एसडीएम लखनऊ के पद से लखीमपुरखीरी का नया उपजिलाधिकारी बनाया गया है।

कृषि दशन प्रदेशनी

0.82

तिसाहिक वार्षिक वित्तीय परिणामी के विस्तृत प्रारूप का एक सार हैं। तैमाहिक त्वार्षिक वित्तीय परिणामी के विस्तृत प्रारूप का एक सार हैं। तैमाहिक त्वार्षिक वित्तीय परिणामी के विस्तृत प्रारूप का एक सार हैं। तैमाहिक त्वार्षिक वित्तीय परिणामी का पूर्ण प्र http://www.bseindia.com और कम्पनी की वेबसाइट http://www.fortuneinternational.in पर भी उपलब्ध हैं।

0.87

टिप्पणी : उपरोक्त सेबी (लिस्टिंग और अन्य घोषणा आवश्यकताएं) नियमनों, 2015 के नियमन 33 के तहत स्टॉक एक्सचेंजेज के पास दायर किये गये

17 18 19 फरवरी 2024 स्थान :-> उत्तरी क्षेत्र कृषि मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान (टी. टी. सी.) हिसार, हरियाणा

हर वर्ष की मांति इस बार भी टी.टी.सी., हिसार, हरियाणा में आयोजित होने वाली प्रदेश की सबसे बड़ी 'कृषि एवं औद्योगिक प्रदर्शनी' में आप सभी सादर आमंत्रित हैं।

मुख्य आकर्षण

• कृषि एवं औद्योगिक प्रदर्शनी।

आधुनिक व नई तकनीक वाले कृषि यंत्रों की जानकारी।
 पम्प व सोलर तकनीक की जानकारी।

खेती में ड्रोन के इस्तेमाल सम्बन्धित जानकारी।

• उन्नत बीज, कीटनाशक व उर्वरकों की जानकारी।

• उन्त बागवानी, सुक्ष्म सिंचाई व ग्रीनहाउस की जानकारी।

• डीलरशिप/डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेने सम्बन्धित जानकारी। • क्रिष सम्बन्धित लोन/योजनाओं की जानकारी।

हरियाणा के प्रसिद्ध कलाकारों द्वारा लोक-संगीत व सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तृत किए जाएगें। अधिक जानकारी के लिए सम्पर्क करें :- मो. 9992223116, 9992223119

SINDHU TRADE LINKS LTD.

129. Transport Centre, Rohtak Road, Punjabi Bagh, New Delhi-110035 Unaudited Financial Results (Standalone & Consolidated) for the Quarter ended on 31st December, 2023

CIN: L63020DL1992PLC121695 Website: www.sindhutrade.com, Email id: corporatecompliance@sindhutrade.com, Ph.: 0124-6913083

Extracts of Standalone &Consolidated Unaudited Financial Results for the Quarter Ended on 31.12.2023

(in Lakhs)

			Stan	dalone			Consolidated					
Particulars Particulars	Quarter Ended		Year to Date		Year Ended		Quarter Ended		Year to Date		Year Ended	
vid tapou descriptioner	31.12.2023 (Unaudited)	30.09.2023 (Unaudited)	31.12.2022 (Unaudited)	31.12.2023 (Unaudited)	31.12.2022 (Unaudited)	31.03.2023 (Audited)	31.12.2023 (Unaudited)	30.09.2023 (Unaudited)	31.12.2022 (Unaudited)	31.12.2023 (Unaudited)	31.12.2022 (Unaudited)	31.03.2023 (Audited)
Total Income from operations	13735.09	14,366.23	13288.45	42254.74	35,034.18	49,029.58	47396.61	47,584.18	32607.25	139419.34	84554.18	1,33,452.97
Net Profit/ (Loss) for the period (before tax, exceptional and/ or extraordinary items)	1086.62	2,385.21	1189.12	4904.18	2,710.13	4,310.54	9596.21	5,561.07	(102.47)	19632.26	(2400.73)	1,670.43
Net Profit/ (Loss) for the period before tax (after exceptional and/ or extraordinary items)	1086.62	2,385.21	1189.12	4904.18	2,710.13	4,310.54	9596.21	5,561.07	(277.47)	19632.26	(2812.33)	1,668.77
Net profit/ (Loss) for the period after tax (before comprehensive Income)	823.18	1,825.13	577.00	3633.56	2,172.42	3,277.40	9313.77	5,026.30	(943.00)	17273.93	(3490.27)	(348.23)
Total Comprehensive Income for the Period (comprising Profit / Loss for the Period (after Tax)) and Other Comprehensive Income (after Tax)	1036.51	1,825.22	1951.18	3846.96	5,038.61	11,037.34	9567.17	6,798.84	1890.69	18872.68	15679.83	4,198.52
Equity Share Capital	15,419.29	15,419.29	15,419.29	15,419.29	15,419.29	15,419.29	15,419.29	15,419.29	15,419.29	15419.29	15419.29	15,419.29
Reserves (excluding Revaluation reserves) as shown in the Audited Balance Sheet of the Previous Year)	69373.65	68,337.13	59728.35	69373.65	59,728.35	66511.91	131916.33	1,26,129.84	111802.81	131916.33	111802.81	1,17,793.76
Earning Per Shares (for continuing and discontinued operation) of 1/-each) Basic: Diluted:	0.05 0.05	0.12 0.12	0.04 0.04	0.24 0.24	0.14 0.16	0.21 0.24	0.42 0.42	0.21 0.21	-0.05 -0.05	0.77 0.77	-0.22 -0.22	0.00

Notes:-

- The above is an extract of the detailed format of quarterlyfinancial results filed with the stock exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the quarterly financial results is available on the websites of the Stock Exchange and company's website www.sindhutrade.com. The above results after being reviewed by the Audit Committee were taken on record by the Board at its Meeting held on 13th February, 2024.
- The above Unaudited financial results of the Company for the Quarterended on 31st December, 2023have been reviewed by Audit Committee of the Board and approved by the Board of Director at its meeting held on 13th February, 2024.
- 3. The figures are regrouped in previous year also, wherever considered necessary.

4. Limited Review Report has been carried out by the Statutory Auditors for the above period.

For & on behalf of Board of Directors Sindhu Trade Links Limited

> Rudra Sen Sindhu Chairman & Director DIN: 00006999

किया। सदन में वित्त मंत्री ने लाख 78 हजार 425 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। बजट बताया कि स्कूलों में ड्रॉप आउट की संख्या में कमी आई है। साथ ही उन्होंने कहा कि बिहार का विकास दर 10.4 प्रतिशत है, जो देश में सबसे अधिक है।

आईटी पॉलिसी २०२४ लागु

वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में कहा कि, सचना- प्रौद्योगिको के लिए नयी नीति लाई गई है। रोजगार की क्षमता को बढ़ावा है। बिहार में बिहार बिजनेस कनेक्ट का आयोजन किया गया, जिसमें 50 हजार 503 करोड़ के निवेश पर एमओयू साइन किया गया। स्वरोजगार के लिए ९४ लाख परिवार

भव्य मंदिर की आधारशिला रखने आ रहे पीएम नरेन्द्र मोदी के स्वागत को संभल तैयार है। सुरक्षा से लेकर पूरी व्यवस्था चाक चौबंद करने की तैयारी है। सीएम योगी के आने के बाद काम में और तेजी आ चुकी है। जमीन से तकरीबन चार से पांच फुट नीचे काफी बड़े भाग में गर्भ गृह के लिए शिला पूजन होना है। नीचे तक जाने के लिए सीढियां बनाई जा रही है।

संभल। 19 फरवरी को ऐचोडा कंबोह के कल्कि धाम परिसर में

पेज एक का शेष

१९ फरवरी को मंदिर का शिलान्यास करेंगे मोदी

युएई में बोले पीएम ..

इंनिया का वह देश जिसकी अर्थव्यस्था बहुत तेजी से आने बढ़ रही है, वह देश हमारा भारत है। दुनिया का वह देश कौन सा है, जो स्मार्टफोन डाटा का उपभोग करने में नंबर वन है। दुनिया का वह देश कौन सा है, जहां सबसे ज्यादा दूध का उत्पादन होता है. वह हमारा देश भारत हैं। प्रधानमंत्री ने कहा, 'मुझे बताया गया कि यहां स्टेडियम में इस वक्त सैकडों की संख्या में छात्र भी आए हैं। आज यूएई में मौजूद भारतीय स्कूलों में ऐसे सवा लाख से अधिक छात्र पढ़ रहे हैं, ये युवा साथी भारत-युएई की समृद्धि के सारथी बनने जा रहे हैं। शेख मोहम्मद बिन जायद के समर्थन से पिछले महीने ही आईआईटी दिल्ली के अब्बू धाबी में मास्टर कोर्स शुरू हुआ है। दुबई में सीबीएसई का कार्यालय भी जल्द ही खुलने वाला है। मुझे भरोसा है कि ये संस्थान यहां भारतीय समुदाय को बेहतरीन शिक्षा देने में मदद करेंगे। उन्होंने आगे कहा, 'अब अब धाबी में ये भव्य दिव्य मंदिर का लोकार्पण का ऐतिहासिक समय आ गया है। भारत-यर्ष्ड की ढोस्ती जितनी जमीन पर मजबत है. उतन ही उसका परचम अंतरिक्ष में भी लहरा रहा है। मैं अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष में समय बिताने वाले पहले युएई के एस्ट्रोनॉट को बधाई देता हुं। तौंसरे कार्यकाल में तीसरी बड़ी अर्थेव्यस्था बनेगा भारतः प्रधानमंत्री ने कहा, आप जानते हैं मुझे हर भारत के सामर्थ्य पर कितना ज्यादा भरोसा है। इसी भरोसा के दम पर मोदी ने एक गारंटी भी दी है। मोदी की गारंटी आप जानते हैं। मोदी ने अपने तीसरे कार्यकाल में भारत को तीसरे नंबर की

अर्थव्यवस्था बनाने की गारंटी दी है। मोदी की

गारंटी यानी गारंटी पुरा होने की गारंटी।

फिर 'हदें' तोड रहे... लिए शंभ बॉर्डर पर खास इंतजाम किए थे लेकिन वे सारे इंतजाम अब नाकाफी साबित हो रहे हैं और धीरे धीरे किसानों का समूह आने बढ़ने लगा है। किसानों के अलग-अलग समहों ने 16 फरवरी को भारत बंद का ऐलान भी किया है। ये किसान इस बार दिल्ली में करीब ६ महीने से ज्यादा की तैयारी के साथ आ रहे हैं, जिससे वे सरकार के खिलाफ लंबे वक्त तक अपना प्रदर्शन कर सकें।

सोमवार की चंडीगढ़ की बैठक के बाद बोले कृषि मंत्री...जिन तीन प्रमुख मांगों पर सहमति नहीं, उन पर आगे हम करेंगें बातचीतः केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि हम बातचीत के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। किसानों के साथ दो दौर की बातचीत का कोई नतीजा नहीं निकल सका। किसी भी समस्या के हल तक पहुंचने के लिए आगे की चर्चा जरूरी है। उन्होंने आने कहा कि हम कोई रास्ता निकालने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। मुंडा उस डेलिगेशन का हिस्सा थे, जिसने सोमवार को चंडीगढ में किसान नेताओं से बातचीत की थी। साथ ही, दिल्ली तक कूच करने के लिए मनाने की भी काफी कोशिश को थी। हालांकि, बैठक में कुछ मांगों पर सहमति बनी, लेकिन न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की गारंटी देने वाला कानून बनाने सहित तीन प्रमुख मांगों पर कोई सहमति नहीं बन सकी। अर्जुन मुंडा ने सोमवार को बैठक के बाद कहा कि हम कुछ मुद्धों पर सहमत हो गए हैं और कुछ पर सहमति बनने के लिए हमे राज्यों से बातचीत करनी पडेगी। हम बातचीत के जरिए समाधान निकालने की कोशिश कर रहे हैं। सीजेआई ने कहा-ट्रैफिक जाम से परेशानी हो तो मुझे बताएं: - किसानों के 'दिल्ली चलो' मार्च के कारण दिल्ली-एनसीआर में बड़े पैमाने पर ट्रैफिक जाम को ध्यान में रखते हुए मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि अगर किसान विरोध प्रदर्शन के कारण ट्रैफिक में फंसते हैं तो वह वकीलों को तरजीह देंगे। सीजेआई और जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने दिन की कार्यवाही की शुरुआत में वकीलों से कहा कि अगर किसी को यातायात की स्थिति के कारण कोई समस्या है तो हम एडजस्ट करेंगे। किसानों के प्रदर्शन का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। सुप्रीम

कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष आदिश अग्रवाल

ने मख्य न्यायधीश डीवाई चंद्रचुड को पत्र लिखा। उन्होंने दिल्ली में प्रवेश करने की कोशिश करने वाले किसानों पर उपद्रव पैदा करने और नागरिको के ढैनिक जीवन को परेशानी में डालने का आरोप लगाया है। उन्होंने सीजेआई से कहा कि कोर्ट में वकीलों के न आने पर भी कोई विपरीत आदेश पारित न किया जाए। वहीं. सीजेआई ने इस चिट्टी के जवाब में कहा कि अगर ट्रैफिक जाम से किसी भी तरह की परेशानी हो तो मुझे बताएं।

कुछ उपद्रवी तत्व..

हित को लेकर प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि बैठक में अधिकांश मामलों पर सहमति बनी थी। कई मामले ऐसे हैं जिन पर सरकार बातचीत के लिए ओपन है। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो इसे समाधान के बजाए समस्या के रूप में देखना चाहते हो। किसानों से निवेदन है कि ऐसे लोगों से दूर रहे जो वातावण को प्रतिकूल बनाना चाहते हैं। मुंडा ने कहा कि किसानों को यह ध्यान रखना चाहिए कि अन्य लोग उनके पदर्शन का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने सरकार पर भरोसा रखने का आग्रह जताया। मंडा ने कहा कि इनमें कई ताकतें हैं जो किसानों को बदनाम करने की कोशिश कर रही हैं। ऐसे लोगों से सावधान रहने की जरुरत है। सरकार किसानों के हितों के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। कुछ उपद्रवी तत्व किसानों के मार्च को हाईजैक करने की कोशिश में

लगे हुए हैं<u>।</u>

बल प्रयोग से बचे... कदम उठाने चाहिए। किसी भी कीमत पर कानून व्यवस्था का पालन होना चाहिए। कोर्ट ने कहाँ कि बल का इस्तेमाल आखिरी चारा होना चाहिए मुमकिन हो तो इससे बचना चाहिए। किसानों आंदोलन से जुड़े इस मामले में अब पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट अगली सुनवाई गुरुवार को करेगा।

अब हर महीने...

प्रदान करके १ करोड़ घरों को रोशन करना है। उन्होंने कहा कि इस योजना को जमीनी स्तर पर लोकप्रिय बनाने के लिए शहरी स्थानीय निकायों और पंचायतों को अपने अधिकार क्षेत्र में छत पर सौर प्रणाली को बढावा ढेने के लिए पोत्साहित किया जाएगा। साथ ही इस योजना से लोगों को अधिक आय, कम बिजली बिल और रोजगार युजन होगा। स्कीम के तहत सरकार लाभार्थियों के बैंक खातों में सीधे सब्सिडी डालेगी। उन्हें रियायती दरों पर बैंक लोन का बंदोबस्त भी किया जाएगा। पीएम ने बताया है कि इसके लिए एक राष्ट्रीय ऑनलाइन पोर्टल बनेगा जिसमें सभी तरह की सुविधाओं को इंटीग्रेट किया जाएगा। एक तरह से यह पोर्टल इंटरफेस की तरह काम करेगा। इसमें हर तरह की सुविधा ली जा सकेगी। इस योजना को जमीनी स्तर पर बढ़ावा देने के लिए शहरी स्थानीय निकायों और पंचायतों को अपने क्षेत्रों में रूफटॉप सोलर सिस्टम को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। इसके अलावा इस स्कीम का उद्देश्य आय बढ़ाना, बिजली बिल कम करना और लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करना है।

खुदरा महंगाई दर में कमी, महुंगाई दर चार प्रतिशत पर (दोनों ओर दो प्रतिशत की मार्जिन के साथ) रखने का लक्ष्य दिया है। सिब्जयों (२७.६ फीसदी बनाम २७

फीसदी), ढालों (१९.५ फीसदी बनाम २०.७ फीसदी), मसालों (19.7 फीसदी की तुलना में 16.4 फीसबी) और फलों (11.1 फीसबी की तुलना में 8.7 फीसबी) की कीमतों में कम वृद्धि हुई और तेल और वसा (-15 फीसदी बनाम 15 फीसदी) के

लिए क्रीमतों में गिरावट जारी रही।

ढांचे सफलतापूर्वक विकसित किया है। वर्ष 2001 में आर्थिक विज्ञान के स्पेंस ने कहा, अभी सर्वाधिक संभावित वृद्धि दर वाली अर्थव्यवस्था भारत है। यह खुला, प्रतिस्पर्धी है और एक विशाल क्षेत्र में समावेशी प्रकार की सेवाएं प्रदान करता है।

Dated: 13.02.2024 Place: Gurugram

WWW.FINANCIALEXPRESS.COM



ART HOUSING FINANCE (INDIA) LIMITED (Formerly known as ART Affordable Housing Finance (India) Limited. Regd. Office: 107, First Floor, Best Sky Tower, Netaji Subhash Place, Pitampura, New Delhi-110034 anch Office: 49, Udyog Vihar Phase 4, Gurugram, Haryana 122015

APPENDIX-IV (See rule 8(1)) POSSESSION NOTICE (For Immovable Property)

Whereas, The undersigned being the Authorized Officer of ART HOUSING FINANCE (INDIA LIMITED [CIN NO. U65999DL2013PLC255432] under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act 2002 and in exercise of powers conferred under section 13(12) read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules 2002, issued a Demand Notice dated 09.05.2023 for Loan Accounts No. LXDEL05500-000000331 calling upon the borrower(s) SUNIL KUMAR & VEENA to repay the amoun mentioned in the notice being Rs.14,21,999/- (Rupees Fourteen Lakh Twenty-One Thousand Nine Hundred Ninety Nine Only) as on 09.05.2023 and interest thereon within 60 days from the date of receipt of the said notice.

The borrower having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrower(s) and the public in general that the undersigned has taken physical possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him under Sub-Section (4) of Section 13 of the Act read with Rule 8 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 on 10.02.2024 The borrower in particular and the public in general are hereby cautioned not to deal with the

property and any dealings with the property will be subject to the charge of the ART Housing Finance (India) Limited for an amount of Rs.14,21,999/- (Rupees Fourteen Lakh Twenty-One Thousand Nine Hundred Ninety Nine Only) as on 09.05.2023 and interest thereon. The borrower's attention is invited to provisions of Sub-Section (8) of Section 13 of the Act in

respect of time available, to redeem the Secured Asset.

DESCRIPTION OF THE IMMOVABLE PROPERTY

PROPERTY BEARING NO. FLAT NO- 24, GROUND FLOOR, SECTOR-34, POCKET-1 BLOCK B-16, LIG, ROHINI, NEW DELHI, DELHI - 110085 WHICH IS BOUNDED AS UNDER EAST : AS PER TITLE DEEDS WEST : AS PER TITLE DEEDS NORTH : ASPERTITLE DEEDS SOUTH : AS PERTITLE DEEDS AUTHORISED OFFICER DATE: 10.02.2024 ART HOUSING FINANCE (INDIA) LIMITED PLACE : DELHI NCR

"IMPORTANT"

acceptance of advertising copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or transactions with companies, associations or individuals or Publications. We therefore make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an

Legal Cell HDFC BANK Plot # 31, Najafgarh Industrial Area, Tower-A, 1st Floor, Shivaji Marg. Moti Nagar, New Delhi - 110015 "APPENDIX- IV-A [See proviso to rule 8 (6)] SALE NOTICE FOR SALE OF IMMOVABLE PROPERTIES

E-Auction Sale Notice for Sale of Immovable Assets under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 read with proviso to Rule 8 (6) of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002. Notice is hereby given to the public in general and in particular to the Borrower (s) and Guarantor (s) that the below described immovable property mortgaged/charged to the Secured Creditor, the physical possession of which has been taken by the Authorised Officer of HDFC Bank Ltd. Secured Creditor, will be sold on "As is where is", "As is what is" and "Whatever there is" on 23rd March 2024, for recovery of Rs. 1,86,56,295/- o/s as on 28.03.2023 along with further interest and charges applicable due to the HDFC Bank Ltd. Secured Creditor from 1 M/S KVS INTERNATIONAL, 2. MRS. SUNITA CHHABRA W/O MR. VINOD CHHABRA, 3. MR. NIPUN CHHABRA S/O MR. VINOD CHHABRA, 4. M/S C3 EXIM CO. THROUGH ITS PROP. MR. NIPUN CHHABRA & 5. MR. VINOD KUMAR (SINCE DECEASED) REPRESENTATIVE THROUGH IT'S LEGAL HEIRS: - (1) MS. SUNITA CHHABRA & (2) MR. NIPUN CHHABRA. The reserve price will be Rs. 2,80,00,000/- and the earnest money deposit will be Rs. 28,00,000/-. Short description of the immovable property

SL.No.	Address of the Property/ Assets Details	Owner Name	Type of Property
	Property No. F-20, Situated At 4th Floor (with Roof Rights), Built On Plot No. 20, Block-F, Colony Known As South City-II, Sohna Road, Gurugram, Haryana (covered Area Measuring 174.598 Sq Mtrs.)	CHHABRA	RESIDENTIAL

Secured Creditor's website. https://www.hdfcbank.com/personal/resources/important-notices. Date: - 14.02.2024, Place: - New Delhi Authorised Offier, HDFC Bank Ltd.

muthoot HOUSING FINANCE

MUTHOOT HOUSING FINANCE COMPANY LIMITED Registered Office: TC NO.14/2074-7, Muthoot Centre, Punnen Road, Thiruvananthapuram - 695 034.

CIN NO - U65922KL2010PLC025624. Corporate Office: 12/A 01, 13th floor, Parinee Crescenzo, Plot No. C38 & C39, Bandra Kurla Complex-G block (East), Mumbai-400051 TEL. NO: 022-62728517, Authorised Officer Email ID: authorised.officer@muthoot.com, Contact Person: Govind Ram Balram Sharma - 9212443181.

PUBLIC NOTICE - AUCTION CUM SALE OF PROPERTY

Sale Of Immovable Assets Under Securitization And Reconstruction Of Financial Assets & Enforcement Of Security Interest Act, 2002 In exercise of powers contained in the Securitization and Reconstruction of Financial Assets & Enforcement of Security Interest Act, 2002, the Authorized Officer of the Muthoot Housing Finance Company Ltd., (hereinafter referred to as the "Company") has taken the possession of under mentioned properties (hereinafter referred to as "Secured Asset") and held as security in respect of HOUSINGLoan facilities granted to below mentioned customers (hereinafter referred to as "Borrowers") and further It has been decided to sell the Secured Asset on "as is where is", "as is what is", "whatever there is" and "no recourse" basis/conditions by inviting sealed tenders from public in respect of the secured debt amounting to amount in below with further interest and expenses thereon till final payment of the overdue from Borrowers.

Sr.	Name of Borrower/s & LAN	Possession	Total O/s Amount (Rs.)	Reserve	E.M.D.
No.		Type & Date	Future Interest Applicable	Price (Rs.)	(Rs.)
1.	LAN No.: 15100123339 1. Shalini Dubey 2. Rajpal Dubey	Symbolic Possession - 08-February-2024	Rs.17,20,803.24/- as on 13-February-2024	Rs. Rs.21,00,000/-	Rs. 2,10,000/-

KHASRA NO ~ 2996, SHAHPUR BAMHETA, MANSAROVAR PARK, PARGANA ~ LONI, TEHSIL & DISTT - GHAZIABAD, UTTAR PRADESH -201002, AREA ADMEASURING 105 SQUARE YARDS. BOUNDARY OF PLOT ARE: - EAST: - 15 FEET WIDE ROAD, WEST: - OTHER PLOT, NORTH: - OTHER PLOT, SOUTH: - OTHER PLOT.

LAN No.: 15600084564 1. Jitendra Kumar Kaluram 2. Asha Jitendra, 3. Lokesh Kumar	Symbolic Possession - 17-January-2024	Rs.5,38,886.16/- as on 13-February-2024	Rs. 4,50,000/-	Rs. 45,000/-
escription of Secured Asset(s) /Immovable Pr	operty (ies): ALL THAT PART AN	D PARCEL OF THE PR	OPERTY BEAR	ING BEING

KHASRANO - 6312, GRAM - SHEER GARHI, TEHSIL & DISTRICT - MEERUT, UTTAR PRADESH - 250004, ADMEASURING 33.44 SQUARE

METER., BOUNDARY OF PLOTARE: - EAST: - 25 FEET / PLOT OF RAMVEER, WEST: - 25 FEET / PLOT OF SUKHVEER, NORTH: - 14 FEET

LAN No.: 15600087340 Rs.7,78,646.37/-Symbolic Possession 1. Arvind Kumar Javvir 17-January-2024 8,50,000/-85,000/-13-February-2024 Sapna Arvind Tomar, 3. Sanjeev Kumar

Description of Secured Asset(s) /Immovable Property (ies): ALL THAT PART AND PARCEL OF THE PROPERTY BEARING BEING KHASRA NO - 858, SITUATED AT SANJAY VIHAR, NEAR JAI BHIM NAGAR, MEERUT, UTTAR PRADESH, ADMEASURING 82 SQUARE YARDS I.E. 68.56 METERS., BOUNDARY OF PLOT ARE: - EAST: - 18 FEET VACANT PLOT, WEST: - 18 FEET HOUSE OF MRS ARCHANA WIFE OF MR. OMKAR, NORTH: -41 FEET OTHER'S POPERTY, SOUTH: -41 FEET AND THEN THE PATH IS 15 FEET WIDE.

Inspection Date & Time: 29-February-2024 & 01-March-2024 at 10.00 AM to 05.00 PM Auction Date: 19-March-2024 10.00 AM to 03.00 PM & Last date for Submission of Bid: 18-March-2024

4 INCH/RASTA 10 FEET WIDE, SOUTH: - 14 FEET 4 INCH/PLOT OF SHARMAJI.

Place of Sale: B2, First Floor, RDC, Rajnagar, above SBI Bank, Ghaziabad (UP)-201001.

Intending bidders may inspect the properties on the date and time as mentioned above. Terms & Conditions of public auction:-1) Sale is strictly subject to the terms and conditions mentioned hereunder as per extant guidelines under SARFAESI Act, 2002 & also the terms

and condition mentioned in the offer/ tender document to be submitted by the intending bidders. 2) The property will be sold on "As is where is" and "As is what is" "whatever there is" and "no recourse" condition, including encumbrances, if any, 3) The properties under auction can be inspected on the date & time specified above. For any gueries with regards to inspection of properties or submission of tenders, kindly establish contact to The Authorised Officers at respective locations on above mention contact numbers. The interested buyers may send theirs offers for the above property in a sealed cover along with Demand Draft Payable at Mumbai favoring "Muthoot Housing Finance Company Limited" towards earnest money deposit (EMD) 10% of Reserve Price. 4) Along with offer documents, the intending bidder shall also attach a copy of the PAN card issued by the Income Tax department AND bidder's identity proof and the proof of residence such as copy of the Passport, Election Commission Card, Ration Card, Driving license etc. 5) In no eventuality the property would be sold below the reserve price. 6) The bidders present in the auction would be allowed to increase their offer multiples of Rs.10000/- in addition to Reserve Price fixed. 7) All dues and outgoings, i.e. Municipal Taxes, Maintenance / Society Charges, Electricity and water taxes or any other dues including Stamp Duty, Registration Charges, Transfer Charges and any other expenses and charges in respect of the registration of the Sale Certificate in respect of the said properties shall be paid by the successful bidder/purchaser. 8) The successful bidder/purchaser shall have to pay 25% of the final bid amount (after adjusting 10% of the E.M.D. already paid) within next working days from the acceptance of the offer by the Authorized Officer in respect of the sale, failing which, the earnest money deposit will be forfeited. 9) The balance 75% of the Sale price shall have to be paid within 15 days of conveying the confirmation of the sale to the successful Purchaser by the Authorized Officer or such extended period as agreed upon in writing by and solely at the discretion of the Authorized Officer. 10) The Authorized Officer reserves his right to vary any of the terms and condition of this notice for sale, without prior notice, at his discretion. 11) The Authorized Officer reserves the right to reject any/all bids without assigning any reason. All the bids received from the prospective bidders shall be returned to them without any liability / claim against M/s Muthoot Housing Finance Company Ltd. 12) The borrower's attention is invited to the provisions of sub section 8 of section 13, of the SARFAESI Act, in respect of the time available, to redeem the secured asset. 13) Public in general and borrower(s)/ mortgagor(s)in particular please take notice that if in case auction scheduled herein fails for any reason whatsoever then secured creditor may enforce security interest by way of sale through private treaty.

(Enforcement) Rules of SARFAESIACT. Borrower/s are also requested to remove their uncharged belongings from the property within 30days' time else it will be removed from property on their risk and cost.

The borrower(s)/guarantor(s)/mortgagor(s) are hereby given STATUTORY 30DAYS NOTICE UNDER RULE 8(6) & 9 of The Security Interest

Place: UTTAR PRADESH, Date: 14-February-2024 Sd/- Authorised Officer, For Muthoot Housing Finance Company Limited

CAPRI GLOBAL CAPITAL LIMITED

CÁPRI GLOBAL Registered & Corporate Office: - 502, Tower-A, Peninsula Business Park, Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai-400013 Circle Office: 9-B, 2nd floor, Pusa Road, Rajinder Place, New Delhi-110060 CAPITAL LIMITED

APPENDIX- IV-A [See proviso to rule 8 (6) and 9 (1)]

Sale notice for sale of immovable properties

E-Auction Sale Notice for Sale of Immovable Assets under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 read with proviso to Rule 8 (6) and 9 (1) of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 Notice is hereby given to the public in general and in particular to the Borrower (s) and Guarantor (s) that the below described immovable property mortgaged/charged to the Secured Creditor, the Constructive/physical possession of which has been taken by the Authorised Officer of Capri Global Capital Limited Secured Creditor, will be sold on "As is where is", "As is what is", and "Whatever there is" on dates below mentioned, for recovery of amount mentioned below due to the Capri Global Capital Limited Secured Creditor from Borrower mentioned below. The reserve price, EMD amount and property details mentioned below.

1.	1-M/S Trishakti Bath Sanitation	1
	("Borrower")	
	2- Mrs. Jyoti Sharma	
	3-Mr. Sachin Sharma (Co-borrower)	1
	LOAN ACCOUNT No.	1
	LNCGCKKDTL0000004847	
	Rupees 40,56,390/- (Rupees Forty Lacs	
	Fifty Six Thousand Three Hundred Ninety	
	Only) as on 16.02.2023 along with	
	applicable future interest.	

TERMS & CONDITIONS OF ONLINE E-AUCTION SALE:-

(as mentioned above) for property of "Borrower Name."

successful bidder in the E-Auction Sale proceedings.

necessary proof in respect of payment of all taxes / charges.

Movable item (if any) lying in the property is not offer with sale.

Place: DELHI/NCR Date: 14-Feb-2024

Kalpana Chetanwala-7738039346.

successfully.

SR. 1.BORROWER(S) NAME

NO. 2. OUTSTANDING AMOUNT

MORTGAGED PROPERTY All that piece and parcel of Property OF EMD bearing House No. 6 (Naya) Hari 3. DATE & TIME OF THE Kunj, Khasra No. 63/4, area PROPERTY INSPECTION admeasuring 120 Sq Yds,, Tibra Road, New Banke Bihari Garden, 1. E-AUCTION DATE: 29.02.2024 EARNEST MONEY DEPOSIT: Aurangabad Gadana, Modi Nagar, (Between 3:00 P.M. to 4:00 P.M.) Rs. 2,20,000/- (Rupees Two Ghaziabad, Uttar Pradesh - 201204 2. LAST DATE OF SUBMISSION OF Lacs Twenty Thousand Only)

For detailed terms and conditions of the sale, please refer to the link provided in Capit Global Capital Limited Secured Creditor's website i.e. www. Capriglobal.in/auction

2. Particulars of the property / assts (viz. extent & measurements specified in the E-Auction Sale Notice has been stated to the best of information of the Secured Creditor and

3. E-Auction Sale Notice issued by the Secured Creditor is an invitation to the general public to submit their bids and the same does not constitute and will not be deemed to

constitute any commitment or nay representation on the part of the Secured Creditor. Interested bidders are advised to peruse the copies of title deeds with the Secured

Creditor and to conduct own independent enquiries /due diligence about the title & present condition of the property / assets and claims / dues affecting the property before

4. Auction/bidding shall only be through "online electronic mode" through the website https://sarfaesi.auctiontiger.net Or Auction Tiger Mobile APP provided by the service

The bidders may participate in e-auction for bidding from their place of choice. Internet connectivity shall have to be ensured by bidder himself. Secured Creditor /service

For details, help, procedure and online bidding on e-auction prospective bidders may contact the Service Provider M/S E-Procurement Technologies Ltd. Auction Tiger,

For participating in the e-auction sale the intending bidders should register their name at https://sarfaesi.auctiontiger.net well in advance and shall get the user id and

8. For participating in e-auction, intending bidders have to deposit a refundable EMD of 10% OF RESERVE PRICE (as mentioned above) shall be payable by interested

9. The intending bidders should submit the duly filled in Bid Form (format available on https://sarfaesi.auctiontiger.net) along with the Demand Draft remittance towards

EMD in a sealed cover addressed to the Authorized Officer, Capri Global Capital Limited Regional Office Plot no. 9B, 2nd Floor, Pusa Road, Rajinder Place, New Delhi 110

10. After expiry of the last date of submission of bids with EMD, Authorised Officer shall examine the bids received by him and confirm the details of the qualified bidders (who

have quoted their bids over and above the reserve price and paid the specified EMD with the Secured Creditor) to the service provider M/S eProcurement Technologies Limited

11. Inter-se bidding among the qualified bidders shall start from the highest bid quoted by the qualified bidders. During the process of inter-se bidding, there will be unlimited

 Immediately upon closure of E-Auction proceedings, the highest bidder shall confirm the final amount of bid quoted by him BY E-Mail both to the Authorised Officer, Capri Global Capital Limited, Regional Office Office/Plot no. 9B, 2nd Floor, Pusa Road, Rajinder Place, New Delhi 110 060 and the Service Provider for getting declared as

14. The successful bidder shall deposit 25% of the bid amount (including EMD) within 24 hour of the sale, being knocked down in his favour and balance 75% of bid amount

15. In case of default in payment of above stipulated amounts by the successful bidder / auction purchaser within the stipulated time, the sale will be cancelled and the amount

17. The Successful Bidder shall pay 1% of Sale price towards TDS (out of Sale proceeds) (if applicable) and submit TDS certificate to the Authorised officer and the deposit the entire amount of sale price (after deduction of 1% towards TDS), adjusting the EMD within 15 working days of the acceptance of the offer by the authorized officer, or within

18. Municipal / Panchayat Taxes, Electricity dues (if any) and any other authorities dues (if any) has to be paid by the successful bidder before issuance of the sale certificate.

19. Sale Certificate will be issued by the Authorised Officer in favour of the successful bidder only upon deposit of entire purchase price / bid amount and furnishing the

21. The Authorized officer may postpone / cancel the E-Auction Sale proceedings without assigning any reason whatsoever. In case the E-Auction Sale scheduled is

26. For further details and gueries, contact Authorised Officer, Capri Global Capital Limited: Mr. Sushil Gupta Mo. No. 7400445137 and for further inquiry Ms.

27. This publication is also 15 (Fifteen) days notice to the Borrower / Mortgagor / Guarantors of the above said loan account pursuant to rule 8(6) and 9 (1) of Security Interest

Special Instructions / Caution: Bidding in the last minutes/seconds should be avoided by the bidders in their own interest. Neither Capri Global

Capital Limited nor the Service Provider will be responsible for any lapses/failure (Internet failure, Power failure, etc.) on the part of the bidder in

such cases. In order to ward off such contingent situation, bidders are requested to make all the necessary arrangements / alternatives such as

back-up power supply and whatever else required so that they are able to circumvent such situation and are able to participate in the auction

16. At the request of the successful bidder, the Authorised Officer in his absolute discretion may grant further time in writing, for depositing the balance of the bid amount.

extension of "10" minutes each, i.e. the end time of e- auction shall be automatically extended by 10 Minutes each time if bid is made within 10 minutes from the last extension.

provider M/S eProcurement Technologies Limited, Ahmedabad who shall arrange & coordinate the entire process of auction through the e-auction platform.

060 latest by 03:00 PM on 28-Feb-2024. The sealed cover should be super scribed with "Bid for participating in E-Auction Sale-- in the Loan Account No.

12. Bids once made shall not be cancelled or withdrawn. All bids made from the user id given to bidder will be deemed to have been made by him alone.

20. Applicable legal charges for conveyance, stamp duty, registration charges and other incidental charges shall be borne by the auction purchaser.

23. All bidders who submitted the bids, shall be deemed to have read and understood the terms and conditions of the E-Auction Sale and be bound by them.

postponed to a later date before 15 days from the scheduled date of sale, it will be displayed on the website of the service provider.

Please note that Borrower has filed one Securitization Application before Lucknow DRT vide SANo. 892/2023 which is still pending.

to enable them to allow only those bidders to participate in the online inter-se bidding /auction proceedings at the date and time mentioned in E-Auction Sale Notice.

The Property is being sold on "AS IS WHERE IS, WHATEVER THERE & WITHOUT RECOURSE BASIS". As such sale is without any kind of warranties & indemnities.

Secured Creditor shall not be answerable for any error, misstatement or omission. Actual extant & dimensions may differ.

provider shall not be held responsible for the internet connectivity, network problems, system crash own, power failure etc.

password. Intending bidders are advised to change only the password immediately upon receiving it from the service provider.

bidders through Demand Draft/NEFT/RTGS in favor of "Capri Global Capital Limited" on or before 28-Feb-2024.

within 15 days from the date of sale by DD/Pay order/NEFT/RTGS/Chq favouring Capri Global Capital Limited.

such other extended time as deemed fit by the Authorised Officer, falling which the earnest deposit will be forfeited.

already paid (including EMD) will be forfeited and the property will be again put to sale.

22. The decision of the Authorised Officer is final, binding and unquestionable.

Bids shall be made taking into consideration of all the statutory dues pertaining to the property.

(Enforcement) Rules 2002, about holding of auction sale on the above mentioned date / place.

Ahmedabad (Contact no. 079-68136880/68136837), Mr. Ram Kumar Mob. 8000023297. Email: ramprasad@auctiontiger.net,.

DESCRIPTION OF THE

2. LAST DATE OF SUBMISSION EMD WITH KYC: 28.02.2024 3. DATE OF INSPECTION: 27.02.2024

1. DATE & TIME OF E-AUCTION

1. RESERVE PRICE 2. EMD OF THE PROPERTY 3. INCREMENTAL VALUE RESERVE PRICE: Rs. 22,00,000/-

(Rupees Twenty Two Lacs Only). **INCREMENTAL VALUE: Rs** 20,000/- (Rupees Twenty Thousand Only)

> sublication of this notice, with a copy to the company at its registered office.

2) Pranav Sahni 1) Pravesh Sahni (Designated Partner) (Designated Partner) Dated: 13.02.2024 Place: New Delhi

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया 🦠 Central Bank of India E-AUCTION SALE NOTICE

Name and address of

Branch: Jail Chungi, Meerut (U.P.), Mob No. 9149250597, E-mail: bmmeer0273@centralbank.co.in

Sale notice for sale of immovable properties E-Auction Sale Notice for Sale of Immovable Assets under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of

Date of Demand Reserve Price

Security Interest Act, 2002 read with proviso to Rule 8 (6) & Rule 9(1) of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002. Notice is hereby given to the public in general and in particular to the Borrower(s) and Guarantor(s) that the below described immovable property/properties mortgaged/charged to the Central Bank of India, Secured Creditor, the constructive possession of which has been taken by the Authorised Officer of Central Bank of India, Secured Creditor, will be sold on "As is where is", "As is what is", and "Whatever there is", on 19.03.2024 between 11:00 AM to 02:00 PM, for the recovery of dues to the Central Bank of India, Secured Creditor from the following Borrower (s) and Guarantor(s). The Reserve Price and Earnest Money Deposit (EMD) of the property is furnished below.

Parrawara/Currenter	Details of the Secured Asset	Notice & O/S Dues	EMD Price	
Borrowers/Guarantor		Date of Possession	Bid Increase Amt	
Borrowers: 1. Shri Amitabh Goswami S/o Shri Hari Nath Goswami. 2. Smt. Rashi Goswami W/o Shri Amitabh Goswami. Guarantor: Smt. Pushpa Goswami W/o Shri Hari Nath Goswami. All Residents of:	Part of Khasra No. 543 Min, Flora Enclave, Near Gangapuram, Indergarhi, Dasna, Pargana Dasna, Tehsil & District Ghaziabad in the name of Shri Amitabh Goswami s/o Shri Hari Nath Goswami & Smt. Rashi Goswami w/o Shri Amitabh Goswani: North- Balcony, South- Main Gate / Stairs, East- Plot No. 59,	14.06.2023 Rs. 23,41,912/- as on 14.06.2023 + interest & other expenses (less recovery thereafter, if any)	Rs. 19,00,000/- Rs. 1,90,000/- Rs. 20,000/-	
	West- Flat No. 402. Boundary of Plot No.60: North- Road 25 feet, South- Plot No. 73, East- Plot No. 59, West- Part of Plot No. 60. Document: Sale Deed. Bahi No. 1, Jild No. 14825, Page	(Symbolic)		
BRANCH: pILKHUWA, HAPUR	Residential Property, Flat No. SF-2 (without roof right), total area 882.00 sqr. ft., of Flora Enclave at Plot No. 91, Part of Khasra No. 543 Min, Near Gangapuram, Dasna, Pargana Dasna, Tehsil & District Ghaziabad in the name of Mrs. Pinky w/o Mr. Parvinder Kumar. Boundaries of Plot / Flat: North- Balcony / Road 25 ft. wide, South- Main Gate-Passage-Flat No. SF-3 / Plot of other East- Flat No. SF-1/Plot No. 90, West- Plot - Building No. 92 /	03.08.2023 Rs. 29,21,790.00	Rs. 27,94,000/-	
Borrowers: Mrs. Pinky w/o Mr. Parvinder			Rs. 2,79,400/-	
Kumar. Guarantor: Mr. Parvinder Kumar s/o Mr. Surendra Pal. Both Residents of: SF-2, Plot No. 91, Flora Enclave, Ghaziabad - 201001.		as on 03.08.2023 + interest & other expenses (less recovery thereafter, if any)	Rs. 20,000/-	
	Plot No. 92. Details of Document Date of Document Bahi No.1, Jild No. 14675, Page No. 1 to 30, Sr. No. 3737, Dt. 27.06.2017 At Office of SR-I, Ghaziabad.	03.01.2024 (Symbolic)		
	Shri Hari Nath Goswami. 2. Smt. Rashi Goswami W/o Shri Amitabh Goswami. Guarantor: Smt. Pushpa Goswami W/o Shri Hari Nath Goswami. All Residents of: Flat No. 403, 3rd Floor, Flora Enclave, Near Gangapuram, Inder Garhi, Ghaziabad (U.P.). BRANCH: pll.KHUWA, HAPUR Borrowers: Mrs. Pinky w/o Mr. Parvinder Kumar. Guarantor: Mr. Parvinder Kumar s/o Mr. Surendra Pal. Both Residents of: SF-2, Plot No. 91, Flora Enclave,	BRANCH: PILKHUWA, HAPUR Borrowers: 1. Shri Amitabh Goswami S/o Shri Hari Nath Goswami. 2. Smt. Rashi Goswami W/o Shri Amitabh Goswami. Mo Shri Hari Nath Goswami. All Residents of: Flat No. 403, 3rd Floor, Flora Enclave, Near Gangapuram, Inder Garhi, Ghaziabad (U.P.). BRANCH: pILKHUWA, HAPUR Borrowers: Mrs. Pinky w/o Mr. Parvinder Kumar. Guarantor: Mr. Parvinder Kumar Syo Mr. Surendra Pal. Both Residents of: SF-2, Plot No. 91, Flora Enclave, Ghaziabad - 201001. Residential Property; Flat No. 403, 3rd Floor (with Roof Right), total area 66.66 square yards, situated at part at Plot No. 60, Part of Khasra No. 543 Min, Flora Enclave, Near Gangapuram, Indergarhi, Dasna, Pargana Dasna, Tehsil & District Ghaziabad in the name of Shri Amitabh Goswami s/o Shri Hari Nath Goswami & Smt. Rashi Gosw	BRANCH: PILKHUWA, HAPUR Borrowers: 1. Shri Amitabh Goswami S/o Shri Hari Nath Goswami. 2. Smt. Rashi Goswami W/o Shri Amitabh Goswami. 3/o Shri Hari Nath Goswami. All Residents of: Flat No. 403, 3rd Floor, Flora Enclave, Near Gangapuram, Inder Garhi Ghaziabad (U.P.). BRANCH: pILKHUWA, HAPUR Borrowers: Mrs. Pinky w/o Mr. Parvinder Kumar. Guarantor: Mr. Parvinder Kumar s/o Mr. Surendra Pal. Both Residents of: SF-2, Plot No. 91, Flora Enclave, Ghaziabad - 201001. BRANCH: pilk Huwa, Hapur Borrowers: Mrs. Pinky w/o Mr. Parvinder Kumar. Guarantor: Mr. Parvinder Kumar s/o Mr. Surendra Pal. Both Residents of: SF-2, Plot No. 91, Flora Enclave, Ghaziabad - 201001. BRANCH: pilk Huwa, Hapur Borrowers: Mrs. Pinky w/o Mr. Parvinder Kumar. Guarantor: Mr. Parvinder Kumar s/o Mr. Surendra Pal. Both Residents of: SF-2, Plot No. 91, Flora Enclave, Ghaziabad - 201001. BRANCH: pilk Huwa, Hapur Borrowers: Mrs. Pinky w/o Mr. Parvinder Kumar. Guarantor: Mr. Parvinder Kumar s/o Mr. Surendra Pal. Both Residents of: SF-2, Plot No. 91, Flora Enclave, Ghaziabad - 201001. BRANCH: pilk Huwa, Hapur Borrowers: Mrs. Pinky w/o Mr. Parvinder Kumar. Boundaries of Plot / Flat: North- Balcony / Road 25 ft. wide, South- Main Gate-Passage-Flat No. SF-3 / Plot of other East- Flat No. 92. Details of Document Date of Document Bahi No.1, 14.06.2023 14.06.2023 14.06.2023 14.06.2023 14.06.2023 14.06.2023 14.06.2023 15.05 16.0	

Details of encumbarance over the above property, as known to the Bank - Not Known

(In Lakhs)

TERMS & CONDITIONS: Interested bidders will register on website https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi and upload their KYC documents and after verification of KYC document by the service provider, EMD amount to be deposited in Global EMD wallet through NEFT only. (Procedure - Buyer/Bidder has to login in his MSTC-IBAPI portal using his login id & password. Click on the link "Pay Pre-Bid EMD", generate a challan selecting the option NEFT & than go to bank to make NEFT payment).

For detailed terms and conditions of the sale, please refer to the website of Central Bank of India (as Secured Creditor's), i.e.

https://www.centralbankofindia.co.in., or IBAPI Web Portal https://ibapi.in., and Bank's approved service provider's website i.e. https://www.mstcecommerce.com. Authorised Officer, Central Bank of India Date:. 13.02.2024 Place: Meerut

SINDHU TRADE LINKS LTD.

129, Transport Centre, Rohtak Road, Punjabi Bagh, New Delhi-110035 Unaudited Financial Results (Standalone & Consolidated) for the Quarter ended on 31st December, 2023

CIN: L63020DL1992PLC121695 Website: www.sindhutrade.com, Email id: corporatecompliance@sindhutrade.com, Ph.: 0124-6913083

Extracts of Standalone &Consolidated Unaudited Financial Results for the Quarter Ended on 31.12.2023

Sd/- (Authorised Officer) Capri Global Capital Ltd.

Consolidated Standalone Year to Date Year to Date Quarter Ended Year Ended Quarter Ended Year Ended Particulars 31.12.2023 31.12.2022 31.12.2023 30.09.2023 31.12.2022 31.12.2023 30.09.2023 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2022 31.03.2023 31.03.2023 (Unaudited) | (Unaudited) (Unaudited) (Unaudited) | (Unaudited) (Audited) (Unaudited) (Unaudited) (Unaudited) (Audited) Total Income from operations 13735.09 14,366.23 13288.45 42254.74 35.034.18 49.029.58 47396.61 47,584.18 32607.25 139419.34 84554.18 1,33,452.97 Net Profit/ (Loss) for the period (before tax, exceptional and/ or 4,310.54 2,385.21 1189.12 2,710.13 5,561.07 (2400.73)1,670.43 extraordinary items) 1086.62 4904.18 9596.21 (102.47)19632.26 Net Profit/ (Loss) for the period before tax (after exceptional and/ or extraordinary items) 1086.62 2,385.21 1189.12 4904.18 2,710.13 4,310.54 9596.21 5,561.07 (277.47)19632.26 (2812.33)1,668.77 Net profit/ (Loss) for the period after tax (before comprehensive Income) 823.18 1,825.13 577.00 3633.56 2.172.42 3,277.40 9313.77 5,026.30 (943.00)17273.93 (3490.27)(348.23)Total Comprehensive Income for the Period (comprising Profit / Loss for the Period (after Tax)) and Other Comprehensive Income (after Tax) 1036.51 1,825.22 1951.18 3846.96 5.038.61 11.037.34 9567.17 6.798.84 1890.69 18872.68 15679.83 4,198.52 15,419.29 15,419.29 15,419.29 15,419.29 15,419.29 15,419.29 15,419.29 15,419.29 15,419.29 15419.29 15419.29 15,419.29 Equity Share Capital Reserves (excluding Revaluation reserves) as shown in the Audited 68,337.13 59728.35 69373.65 59,728.35 66511.91 131916.33 1,26,129.84 131916.33 111802.81 1,17,793.76 Balance Sheet of the Previous Year) 69373.65 111802.81 Earning Per Shares (for continuing and discontinued operation) of 1/-each) 0.05 0.04 0.42 0.77 -0.22Basic: 0.12 0.24 0.14 0.21 0.21 -0.050.00 Diluted: 0.05 0.12 0.04 0.24 0.16 0.24 0.42 0.21 -0.05 0.77 -0.220.00

Notes:-

- 1. The above is an extract of the detailed format of quarterlyfinancial results filed with the stock exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015. The full format of the guarterly financial results is available on the websites of the Stock Exchange and company's website www.sindhutrade.com. The above results after being reviewed by the Audit Committee were taken on record by the Board at its Meeting held on 13th February, 2024.
- 2. The above Unaudited financial results of the Company for the Quarterended on 31st December, 2023have been reviewed by Audit Committee of the Board and approved by the Board of Director at its meeting held on 13th February, 2024.
- 3. The figures are regrouped in previous year also, wherever considered necessary
- 4. Limited Review Report has been carried out by the Statutory Auditors for the above period.

For & on behalf of Board of Directors Sindhu Trade Links Limited Sd/-

Rudra Sen Sindhu Chairman & Director DIN: 00006999

INFINA FINANCE PRIVATE LIMITED Regd.Office: 7th Floor, Dani Corporate Park, 158 C.S.T. Road, Kalina, Santacruz (East), Mumbai - 400 098.

CIN U67120MH1996PTC098584 Website: www.infina.co.in Telephone: 91 22 66808300 Extract of Unaudited financial results for nine months ended December 31, 2023 (Rupees in lakhs) Sr. Particulars Nine months Year ended Nine months No. ended ended 31/12/2023 31/12/2022 |31/03/2023 (Unaudited) (Unaudited) (Audited) 1 Total Income from Operations 34,852.31 14,312.86 22,073.71 2 Net Profit for the period (before tax, exceptional and extraordinary items) 22,097.33 9,906.80 14,301.26 3 Net Profit for the period Before Tax (after exceptional and extraordinary items) 22,097.33 9,906.80 14,301.26 Net Profit for the period after tax (after exceptional and extraordinary items) 18,748.47 7,115.68 10,554.79 5 Total Comprehensive Income for the period [comprising profit for the year (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)] 18,740.96 7,123.06 10,559.01 6 Paid up equity share capital (face value of Rs.10 per share) 220.10 220.10 220.10 7 Reserves (excluding Revaluation Reserve) 227,064.58 230,500.53 249,241.49 Securities Premium Account 9 Net Worth 249,461.59 227,284.68 230,720.63 10 Paid up Debt Capital / Outstanding Debt 228,451.21 113,843.44 99,736.86 11 Outstanding Redeemable Preference Shares 12 Debt Equity Ratio 0.92 0.50 0.43 13 Earnings Per Share (of Rs.10 each) Basic and Diluted . Basic (not annualised) 851.82 479.55 323.29 2. Diluted (not annualised) 851.82 323.29 479.55 14 Capital Redemption Reserve

Notes: 1 The above financial results which have been subjected to review by the statutory auditor of the company have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at its meetings held on February 12, 2024.

The above is an extract of the detailed format of financial results filed with BSE Limited under Regulation 52 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of financial results are available at Company's website www.infina.co.in and on the websites of BSE

3 Figures for the previous period / year have been regrouped wherever necessary to confirm to current

By Order of the Board For INFINA Finance Pvt. Ltd. Sumanlal Shah Rajesh Doshi Director Director DIN: 00019502

Date: February 12, 2024

New Delhi

Place: Mumbai

period presentation.

15 Debenture Redemption Reserve

DIN: 00019473

Place: Gurugram

Dated: 13.02.2024

inancialexp.epapr.in

manner whatsoever.

damage incurred as a result of advertising in its newspapers recommend that readers

advertisement in any

"FORM NO. URC-2"

Act, 2013 and rule 4(1) of the Companies (Authorised to Register) Rules, 2014] Notice is hereby given that in pursuance of sub-section (2) of section 366 of the Companies Act. 2013, an application is proposed to be made after fifteen days hereof but before the expiry of thirty days hereinafter to the Registrar at Central Registration Centre (CRC), Indian Institute of Corporate Affairs (IICA), Plot No. 6,7,8, Sector 5, IMT Manesar,

Advertisement giving notice about registration under Part I of Chapter XXI of the Act

[Pursuant to section 374(b) of the Companies

District Gurgaon (Haryana), Pin Code-122050 that HKK ENTERTAINMENT LLP (ACE-1272) a LLP may be registered under Part I of Chapter XXI of the Companies Act 2013, as a company limited by shares. 2. The Principal objects of the company are as follows:-A. To engage in the business of production of films, television serials, advertisement

animations and line production services. B. To develop software, applications and A copy of the draft memorandum and articles of association of the proposed company may be inspected at the registered office at M-

165, GF GREATER KAILASH, NEW DELHI,

INDIA, 110048. Notice is hereby given that any person objecting to this application may communicate their objection in writing to the Registrar at Central Registration Centre (CRC), Indian Institute of Corporate Affairs (IICA), Plot No. 6.7.8. Sector 5. IMT Manesar, District Gurgaon (Haryana), Pin Code-122050, within twenty one days from the date of

> Name of the Applicant For HKK Entertainment LLP